

॥ जीवितयाथार्थ्यम् अयोध्या
काण्ड अध्याय १०५ ॥

.. jIvitayAthArthyam from
Ayodhya Kanda Chapter 105 ..

sanskritdocuments.org

July 25, 2016

Document Information

Text title : jIvitayAthArthyam ayodhyA kANDa adhyAya 105

File name : jIvitayAthArthyam.itx

Location : doc_z_misc_general

Author : Valmiki

Language : Sanskrit

Subject : philosophy/hinduism/religion

Transliterated by : PSA Easwaran psaeaswaran at gmail.com

Proofread by : PSA Easwaran psaeaswaran at gmail.com

Description-comments : Ayodhya Kanda Chapter 105

Latest update : December 24, 2013

Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com

Site access : <http://sanskritdocuments.org>

॥ जीवितयाथार्थ्यम् अयोध्या काण्ड अध्याय १०५ ॥

सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्रयाः ।

संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवतम् ॥ १६ ॥

समस्त सद्ग्रहों का अन्त विनाश है । लौकिक उन्नतियों का अन्त पतन है ।
संयोग का अन्त वियोग है और जीवन का अन्त मरण है ।

यथा फलानां पक्वानां नान्यत्र पतनाद्भयम् ।

एवं नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणाद्भयम् ॥ १७ ॥

जैसे पके हुए फलोंको पतनके सिवा और किसीसे भय नहीं है, उसी
प्रकार उत्पन्न हुए मनुष्य को मृत्युके सिवा और किसीसे भय नहीं है ।

यथाऽऽगारं दृढस्तूर्णं जीर्णं भूत्वोपसीदति ।

तथावसीदन्ति नरा जरा मृत्युवशंगताः ॥ १८ ॥

जैसे सुदृढ खंबेवाला मकान भी पुराना होने पर गिर जाता है, उसी
प्रकार मनुष्य जरा और मृत्यु के वश में पडकर नष्ट हो जाते हैं ।

अत्येति रजनी या तु सा न प्रतिनिवर्तते ।

यात्येव यमुना पूर्णं समुद्रमुदकार्णवम् ॥ १९ ॥

जो रात बीत जाती है वह लौटकर फिर नहीं आती है । जैसे यमुना जलसे
भरे हुए समुद्र की ओर जाती है, उधर से लौटती नहीं ।

अहोरात्राणि गच्छन्ति सर्वेषां प्राणिनामिह ।

आयूषि क्षपयन्त्याशु ग्रीष्मे जलमिवांशवः ॥ २० ॥

दिन-रात लगातार बीत रहे हैं, और इस संसारमें सभी प्राणियोंकी
आयुका तीव्र गतिसे नाश कर रहे हैं । ठीक वैसे ही जैसे सूर्यकी
किरणों ग्रीष्म ऋतुमें जलको शीघ्रतापूर्वक सोखती रहती हैं ।

आत्मानमनुशोच त्वं किमन्यमनुशोचसि ।

आयुस्तु हीयते यस्य स्थितस्यास्य गतस्य च ॥ २१ ॥

तुम अपने ही लिये चिन्ता करो, दूसरेके लिये क्यों बार बार शोक करते
हो । कोई इस लोकमें स्थित हो या अन्यत्र गया हो, जिस किसीकी भी आयु
तो निरन्तर क्षीण ही हो रही है ।

सहैव मृत्युर्व्रजति सह मृत्युर्निषीदति ।

गत्वा सुदीर्घमध्वानं सह मृत्युर्निवर्तते ॥ २२ ॥

मृत्यु साथ ही चलती है, साथ ही बैठती है और बहुत बड़े मार्गकी

यात्रामें भी साथ ही जाकर वह मनुष्यके साथ ही लौटती है ।

गात्रेषु बलयः प्राप्ताः श्वेताश्चैव शिरोरुहाः ।

जरया पुरुषो जीर्णः किं हि कृत्वा प्रभावयेत् ॥ २३ ॥

शरीरमें झुर्रियाँ पड गयीं, सिरके बाल सफेद हो गये । फिर जरावस्थासे जीर्ण हुआ मनुष्य कौन-सा उपाय करके मृत्युसे बचनेके लिये अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है ?

नन्दन्त्युदित आदित्ये नन्दन्त्यस्तमितेऽहनि ।

आत्मनो नावभुध्यन्ते मनुष्या जीवितक्षयम् ॥ २४ ॥

लोग सूर्योदय होनेपर प्रसन्न होते हैं, सूर्यास्त होनेपर भी खुश होते हैं । किंतु यह नहीं जानते कि प्रतिदिन अपने जीवनका नाश हो रहा है ।

हृष्यन्त्यृतुमुखं दृष्ट्वा नवं नवमिवागतम् ।

ऋतूनां परिवर्तेन प्राणिनां प्राणसंक्षयः ॥ २५ ॥

किसी ऋतुका प्रारम्भ देखकर मानो वह नयी नयी आयी हो (पहले कभी आयी ही न हो) ऐसा समझकर लोग हर्षसे खिल उठते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि इन ऋतुओंके परिवर्तनसे प्राणियोंके प्राणोंका (आयुका) क्रमशः क्षय हो रहा है ।

यथा काष्ठं च काष्ठं च समेयातां महार्णवे ।

समेत्य तु व्यपेयातां कालमासाद्य कञ्चन ॥ २६ ॥

एवं भार्याश्च पुत्राश्च ज्ञातयश्च वसूनि च ।

समेत्य व्यवधावन्ति ध्रुवोद्दोषां विनाभवः ॥ २७ ॥

जैसे महासागरमें बहते हुए दो काठ कभी एक दूसरेसे मिल जाते हैं और कुछ कालके बाद अलग भी हो जाते हैं, उसी प्रकार स्त्री, पुत्र, कुटुम्ब, और धन भी मिलकर बिछुड जाते हैं; क्योंकि इनका वियोग अवश्यम्भावी है ।

नात्र कश्चिद्यथाभावं प्राणी समतिवर्तते ।

तेन तस्मिन् न सामर्थ्यं प्रेतस्यास्त्यनुशोचतः ॥ २८ ॥

इस संसारमें कोई भी प्राणी यथासमय प्राप्त होनेवाले जन्ममरणका उल्लङ्घन नहीं कर सकता । इसलिये जो किसी मरे हुए व्यक्तिके लिये बारंबार शोक करता है, उसमें भी यह सामर्थ्य नहीं है कि वह अपने ही मृत्युको टाल सके ।

यथा हि सार्थं गच्छन्तं ब्रूयात् कश्चित् पथि स्थितः ।

अहमप्यागमिष्यामि पृष्ठतो भवतामिति ॥ २९ ॥

एवं पूर्वैर्गतो मार्गः पितृपैतामहैर्ध्रुवः ।

तमापन्नः कथं शोचेत् यस्य नास्ति व्यतिक्रमः ॥ ३० ॥

जैसे आगे जाते हुए यात्रियों अथवा व्यापारियोंके समुदायसे रास्तेमें खडा हुआ पथिक यों कहे कि मैं भी आप लोगों के पीछे-पीछे जाऊँगा और तदनुसार वह उनके पीछे-पीछे जाय, उसी प्रकार हमारे पूर्वज पिता-पितामह आदि जिस मार्गसे गये हैं जिसपर जाना अनिवार्य है तथा जिससे बचनेका कोई उपाय नहीं है, उसी मार्गपर स्थित हुआ मनुष्य किसी औरके लिये शोक कैसे करे ?

वयसः पतमानस्य स्रोतसो वानिवर्तिनः ।

आत्मा सुखे नियोक्तव्यः सुखभाजः प्रजाः स्मृताः ॥ ३१ ॥

जैसे नदियोंका प्रवाह पीछे नहीं लौटता, उसी प्रकार दिन-दिन ढलती हुई अवस्था फिर नहीं लौटती है । उसका क्रमशः नाश हो रहा है, यह सोचकर आत्माको कल्याणके साधनभूत धर्ममें लगावे; क्योंकि सभी लोग अपना कल्याण चाहते हैं ।

Encoded and proofread by PSA Easwaran psaeaswaran at gmail.com

This piece of advice which Rama gives to Bharata on the transient nature of life is found in Ayodhya Kandam of Valmiki Ramayanam . This is covered in the 105th Chapter of Ayodhya Kanda Slokas 16 to 31. Meaning in Hindi is from Gitapress version.

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of any website or individuals or for commercial purpose without permission.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

was typeset on July 25, 2016

——
Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

